

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2014/पौष 17, 1935

No. 44]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2014/PAUSHA 17, 1935

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2014

का.आ. 44(अ).—केन्द्रीय सरकार, कॉफी नियम 1955 के नियम 3 और नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए (जब तक कि किसी सदस्य के लिए अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए) कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है; अर्थात् :—

नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष, कॉफी बोर्ड—

1. अध्यक्ष कॉफी बोर्ड,
बंगलौर, कर्नाटक

—अध्यक्ष

नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त संसद सदस्य (लोक सभा से दो सदस्य और राज्य सभा से एक सदस्य)—

2. श्री डी.बी.चन्द्र गौड़ा,
संसद सदस्य,
लोक सभा

—सदस्य

(वह 15वीं लोक सभा का कार्यकाल समाप्त होने तक या लोक सभा की सदस्यता समाप्त होने तक इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे)

3. श्री एम. आई. शानवास,
संसद सदस्य,
लोक सभा

—सदस्य

(वह 15वीं लोक सभा का कार्यकाल समाप्त होने तक या लोक सभा की सदस्यता समाप्त होने तक इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे)

4. रिक्त —सदस्य
संसद सदस्य,
राज्य सभा

नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि—

5. कृषि उत्पादन आयुक्त और सचिव, —सदस्य
कृषि विभाग, तामिलनाडु सरकार,
चेन्नई
6. श्री वी. सोमासुन्दरन, —सदस्य
अपर मुख्य सचिव (उद्योग)
केरल सरकार
7. प्रधान सचिव, कर्नाटक सरकार, —सदस्य
उद्यान कृषि विभाग,
कर्नाटक सरकार
8. प्रधान सचिव (जनजातीय कल्याण) —सदस्य
समाज कल्याण विभाग
आंध्र प्रदेश सरकार

नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त बड़े कॉफी उत्पादकों के प्रतिनिधि—

9. डॉ एन. के. प्रदीप, —सदस्य
श्री नंदी एस्टेट,
चेकनहल्ली पोस्ट बेलूर तालुक,
हासन जिला, कर्नाटक
10. श्री अनिल कुमार भंडारी —सदस्य
सुन्तीकोप्पा, कूर्ग, कर्नाटक
11. श्री इमेन्यू टी.रामपुरम, —सदस्य
चातनाहल्ली एस्टेट, सिद्दापुरा दक्षिण कोडागु,
कर्नाटक

नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त लघु कॉफी उत्पादकों के प्रतिनिधि—

12. श्री जाबिर असगर, —सदस्य
मॉस्क रोड, फ्रेजर टाउन, बंगलौर
कर्नाटक
13. श्री बी.एस.जयराम, —सदस्य
बिदाराहल्ली पोस्ट, मुडिगेरी तालुक,
चिकमंगलूर जिला,
कर्नाटक
14. श्री डी.एम विजय, —सदस्य
पुत्र श्री डी. ए. माजेगौडा, हंगरावल्ली पोस्ट अल्दुर
चिकमंगलूर तालुक, चिकमंगलूर जिला, कर्नाटक
15. श्रीमती ए.तारा अय्यमा, —सदस्य
नीला एस्टेट, पो.बॉ.सं.19, बेलेले-571219
दक्षिण कोडागू, कर्नाटक
16. श्री विजय जागीरदार, —सदस्य
13, दूसरा मेन रोड,
व्यालिकावल, बंगलौर-560003
कर्नाटक

17. श्री वसंत लक्ष्मी नारायण, —सदस्य
डी.सं.9-41-28/1, आंध्र बैंक के पास
पीतपुरम कालोनी
विशाखापत्तनम-530003
आंध्र प्रदेश

18. श्री सी.पी. वर्गीज़, —सदस्य
चित्तेमालिल मलनकारा, नेनमेनी पो.ओ.वाया
सुल्तान बाथेरी, वायानाड

नियम 3 के उप नियम (2) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त कॉफी व्यापार हितों से संबंधित प्रतिनिधि—

19. श्री डी.एम.पुरनेश, —सदस्य
क्लासिक कॉफी एंड स्पाईसेस प्रा.लि., 6/1 कनॉट रोड,
कार्यालय क्वीन्स रोड, बंगलौर, कर्नाटक, पिन-560052
20. डॉ.एस.एम.कावेरप्पा, 'अश्विनी' —सदस्य
हाले तालुक, नपोक्लू, कोडागु, कर्नाटक
21. श्री रमेश राजा, —सदस्य
मेसर्स रमेश एक्सपोर्ट्स प्रा. लि. संख्या 45, पैलेस रोड,
बंगलौर, कर्नाटक, पिन-560001

नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त क्यूरिंग स्थापन के प्रतिनिधि—

22. श्री ए.एन.देवराज, —सदस्य
अवति पोस्ट, चिकमंगलूर तालुक कर्नाटक
23. श्री के.ए. इब्राहिम, —सदस्य
सुन्तीकोप्पा मदिकेरे तालुक, कोडागु जिला
कर्नाटक

नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त श्रमिक से संबंधित प्रतिनिधि—

24. श्री जी.भास्कर, —सदस्य
सं. 10, जयम्मल स्ट्रीट, अय्यावो कॉलोनी
अमीनजीकराई, चेन्नई, पिन-600029,
तमिलनाडु
25. श्री ए.एम.अदयंतया, —सदस्य
अध्यक्ष, आईएनटीयूसी, कर्नाटक एवं उपाध्यक्ष
नेशनल आईएनटीयूसी, 8-बी, नागी टावर्स, काद्री हिल्स,
मंगलौर-575004, कर्नाटक
26. प्रो.के. पी. थॉमस, —सदस्य
कक्कातोताथील हाउस, कोट्टायाड रोड,
सुल्तानबेथरी, वायानाड, केरल
27. श्री आर. चंद्रशेखरन, —सदस्य
अध्यक्ष, आईएनटीयूसी, केरल शाखा, अयिक्कूमाथू हाउस
सुरानाड नार्थ, सुरानाड पीओ कोल्लम, केरल

नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त प्रमुख कॉफी उत्पादनकर्ता राज्यों से भिन्न कॉफी उत्पादनकर्ता राज्यों के प्रतिनिधि—

28. श्री के. वी. सत्यनारायण, —सदस्य
अपर प्रमुख सचिव
कृषि विभाग का भारसाधक, सचिव त्रिपुरा सरकार

29. श्री राजेश प्रसाद, आईएएस, —सदस्य
आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य, असम

नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त उपभोक्ता हितों से संबंधित प्रतिनिधि—

30. श्रीमती उमा आई. बी. शंकर, —सदस्य
होस्माने एक्सटेंशन, चिकमंगलूर, कर्नाटक

31. श्री इफ्तेखान खान, —सदस्य
28, न्यू अशोक नगर, आगरा
उत्तर प्रदेश

नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त इंस्टेंट कॉफी विनिर्माताओं के प्रतिनिधि—

32. श्री सी.राजेन्द्र प्रसाद, —सदस्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मेसर्स सीसीएल प्रोडक्ट्स (इंडिया) लि.
7-1-24/2/डी, ग्रीनडेल, अमीरपेट
हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त कॉफी अनुसंधान या विपणन या प्रबंधन या संवर्धन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व—

33. श्री पीटर मथियास —सदस्य
केलगुर एस्टेट सुनकासले पोस्ट, मुदिगेरी तालुक
चिकमंगलूर, कर्नाटक

[फा सं. 02/01/2012-बागान- ख]

जे. एस. दीपक, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2014

S.O. 44(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Coffee Act, 1942 (VII of 1942), read with rule 3 and sub-rule (1) of rule 4 of the Coffee Rules, 1955, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Coffee Board for a period of three years (unless otherwise specified against a member) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

Chairman, Coffee Board appointed under sub-rule (1) of rule 3.

1. Chairman, Coffee Board, —Chairman
Bangalore, Karnataka.

Members of Parliament (Two Members from Lok Sabha and One Member from Rajya Sabha) appointed under sub-rule (1) of rule 3.

2. Shri D. B. Chandre Gowda, —Member
Member of Parliament,
Lok Sabha. (He shall hold office upto expire of 15th Lok Sabha
or till he ceases to be a member of Lok Sabha,
which ever is earlier).
3. Shri M. I. Shanavas, —Member
Member of Parliament,
Lok Sabha. (He shall hold office upto expire of 15th Lok Sabha
or till he ceases to be a member of Lok Sabha,
which ever is earlier).
4. Vacant —Member
Member of Parliament,
Rajya Sabha.

Representatives of Governments of principal coffee growing States appointed under clause (a) of sub-rule (2) of rule 3.

5. The Agriculture Production Commissioner and Secretary to Government, Agriculture Department, Government of Tamil Nadu, Chennai. —Member
6. Shri V. Somasundaran, Additional Chief Secretary (Industries), Government of Kerala. —Member
7. Principal Secretary to Government of Karnataka, Horticulture Department, Government of Karnataka. —Member
8. Principal Secretary (Tribal Welfare), Social Welfare Department, Government of Andhra Pradesh. —Member

Representatives of large coffee growers appointed under clause (b) of sub-rule (2) of rule 3.

9. Dr. N. K. Pradeep, Shri Nandi Estate, Chekanahally Post Belur Taluk, Hassan District, Karnataka. —Member
10. Shri Anil Kumar Bhandari, Suntikoppa, Coorg, Karnataka. —Member
11. Shri Immanue T. Rampuram, Chatnahalli Estate, Siddapura South Kodagu, Karnataka. —Member

Representatives of small coffee growers appointed under clause (b) of sub-rule (2) of rule 3.

12. Shri Jabir Asghar, Mosque Road, Frazer Town, Bangalore, Karnataka. —Member
13. Shri B. S. Jayaram, Bidarahalli Post, Mudigere Taluk, Chikmagalur District, Karnataka. —Member
14. Shri D. M. Vijay, S/o Shri D. A. Majegowda, Hangaravalli Post Aldur, Chikmagalur Taluk, Chikmagalur District, Karnataka. —Member
15. Smt. A. Thara Aiyamma, Neela Estate, P. B. No. 19, Balele-571219, South Kodagu, Karnataka. —Member
16. Shri Vijay Jagirdar, 13, 2nd Main Road, Vyalikaval, Bangalore-560003, Karnataka. —Member
17. Shri Vasantha Lakshmi Narayana, D. No. 9-41-28/1, Near Andhra Bank, Pitapuram Colony, Visakhapatnam- 530003, Andhra Pradesh. —Member
18. Shri C. P. Varghese, Chittomalil, Malankara, Nenmeni P. O. via, Sultan Bathery, Wayanad. —Member

Representatives of coffee trade interests appointed under clause (c) sub-rule (2) of rule 3.

19. Shri D. M. Purnesh, Classic Coffee & Spices Pvt. Ltd., 6/1 Connaught Road, Off. Queens Road, Bangalore, Karnataka, Pin-560052. —Member
20. Dr. S. M. Kaverappa, 'ASHWINI', Haletaluk, Napoklu, Kodagu, Karnataka. —Member
21. Shri Ramesh Rajah, M/s. Ramesh Exports Pvt. Ltd., No. 45, Palace Road Bangalore, Karnataka, Pin-560001. —Member

Representatives of curing establishment appointed under clause (c) of sub-rule (2) of rule 3.

22. Shri A. N. Devraj, —Member
Avaathi Post, Chikmagalur Tq. Karnataka.
23. Shri K. A. Ibrahim, —Member
Suntikoppa Madikere Taluk, Kodagu District, Karnataka.

Representatives of labour interests appointed under clause (c) of sub-rule (2) of rule-3.

24. Shri G. Bhaskar, —Member
No. 10, Jeyammal Street, Ayyavvo colony,
Aminjikarai, Chennai, Pin- 600029, Tamil Nadu.
25. Shri N. M. Adyanthaya, —Member
President INTUC, Karnataka & Vice President
National INTUC, 8-B, Nagi Towers, Kadri Hills,
Mangalore- 575004 Karnataka.
26. Prof. K. P. Thomas, —Member
Kakkathottathil House, Kottayad Road, Sultanbethery,
Wayanad, Kerala.
27. Shri R. Chandrasekharan, —Member
President INTUC, Kerla Branch, Ayikkumathu House,
Sooranad North, Sooranad P. O. Kollam Kerala.

Representatives of coffee growing States other than principal coffee growing States appointed under clause (c) of sub-rule (2) of rule 3.

28. Shri K. V. Satyanarayana, —Member
Additional Chief Secretary, the Secretary in-charge
of the Agriculture Department, Government of Tripura.
29. Sri Rajesh Prasad, —Member
IAS, Commissioner Industries & Commerce, Assam.

Representatives of consumer's interest appointed under clause (c) of sub-rule (2) of rule 3.

30. Smt. Uma I. B. Shankar, —Member
Hosmane Extension, Chikmagalur, Karnataka.
31. Shri Iftekhan Khan, —Member
28, New Ashonknagar, Agra, UP.

Representatives of instant coffee manufacturers appointed under clause (c) of sub-rule (2) of rule 3.

32. Shri C. Rajendra Prasad, —Member
Chairman & Managing Director, M/s CCL Products (India) Ltd.,
7-1-24/2/D, Greendale, Ameerpet,
Hyderabad, Andhra Pradesh.

Eminent Personality in the field of research/marketing/management/promotion of coffee appointed under clause (c) of sub-rule (2) of rule 3.

33. Shri Peter Mathias, —Member
Kelagur Estate, Sunkasale Post, Mudigere Taluk,
Chikmagalur, Karnataka.

[F. No. 02/01/2012-Plant-B]

J. S. DEEPAK, Addl. Secy.